

विद्या -भवन बालिका विद्यापीठ
लखीसराय

दिनांक --- 25 - 5 - 2020

कक्षा --- द्वितीय

विषय --- हिन्दी

विषय शिक्षिका -- निक्की कुमारी

सुप्रभात बच्चों,

आज आपलोग पुनः पाठ -2 के शेष बचे प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे ।

प्रश्नावली

5) इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

क) एक दरबारी ने बादशाह अकबर से क्या कहा ?

उत्तर-- एक दरबारी ने बादशाह सलामत से कहा बीरबल आज कल कितने लापरवाह हो गए हैं ,उन्हें दरबार की फिक्र ही नहीं है।

ख) बीरबल ने देर से आने का क्या कारण बताया ?

उत्तर-- बीरबल ने देर से आने का कारण बच्चे की जिद को बताया ।

ग) बादशाह अकबर बीरबल की बात से सहमत क्यों नहीं थे ?

उत्तर-- बादशाह अकबर बीरबल की बात से सहमत इसलिए नहीं थे, क्योंकि बीरबल बड़ी- से -बड़ी उलझनें मिनटों में सुलझा लेते थे फिर बच्चे की जिद के आगे कैसे हार सकते हैं ।

घ) बादशाह ने जब बीरबल को चुप कराना चाहा तब क्या हुआ ?

उत्तर-- अकबर ने जब बीरबल को चुप कराना चाहा ,तब बीरबल और जोर -जोर से रोने लगे ,और टुकड़े किए गए गन्ने को फिर से साबुत गन्ना बना कर माँगने लगे ।

ङ) बादशाह अकबर को अंत में क्यों हार क्यों माननी पड़ी ?

उत्तर-- बादशाह अकबर को अंत में हार इसलिए माननी पड़ी। क्योंकि कोई भी चीज को यदि हम टुकड़े कर देते हैं तो कभी जुड़ता नहीं है ।इसलिए बादशाह अकबर को हार माननी पड़ी ।

भाषा की समझ

1)समझिए और लिखिए:-

(क) बच्चा -- बच्चे

(ख) कच्चा -- _____

(ग) पन्ना -- _____

(घ) गन्ना -- _____

2)' र ' के अनेक रूप होते हैं। इन रूपों वाले शब्द लिखिए :-

क) बीरबल -- _____, _____, _____।

ख)धर्म -- _____।

ग)प्रसन्न -- _____।

घ)राष्ट्र -- _____।

3)उलटे अर्थ वाले शब्द लिखिए --

क) आना -- जाना

ख)रोना -- _____

ग)जोड़ना -- _____

घ)संभव -- _____

ङ)सच -- _____

च) सहमत -- _____

छ)हार -- _____

ज)शांत -- _____

4) इन शब्दों से वाक्य बनाइए :-

क)देर - _____।

ख)चुप - _____।

ग) जवाब - _____।

घ)सहमत - _____।

ङ)कोशिश- _____।

च)जिद - _____।

हम -आप जो गुर या चीनी खाते हैं ,वे गन्ने से ही प्राप्त होते हैं। सोच कर बताइए कि गुड़ और चीनी किन-किन चीजों में काम आते हैं । अपनी कॉपी में उनकी सूची बनाए।